


गॉर्जिबेले और उसके तीन बाल

Nozibele and the three hairs



Tessa Welch ✎
Wiehan de Jager 🗣️
Nandani 📄
Hindi / English 🗣️
Level 3 📊



香港故事書

global-asp.github.io/storybooks-hongkong
गॉर्जिबेले और उसके तीन बाल / Nozibele and the

three hairs

Written by: Tessa Welch
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Nandani (hi)

This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by 香港故事書 in an effort to provide children's stories in 香港's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>



बहुत समय पहले की बात है, तीन लड़कियाँ लकड़ी इकट्ठा करने बाहर गईं।

...

A long time ago, three girls went out to collect wood.

Then the dog knew that Nozibele had tricked him. So he ran and ran all the way to the village. But Nozibele's brothers were waiting there with big sticks. The dog turned and ran away and has never been seen since.

...

फिर कुत्ते को पता चल गया कि नोजिबेले ने उसे छला है। यह पता चलते ही वह गाँव की तरफ दौड़ा पड़ा। लोकिन नोजिबेले के भाई अपने हथियारों में बड़े - बड़े डंडों के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखकर कुत्ता वापिस मुड़कर भाग गया और फिर कभी भी दिखाई नहीं दिया।



It was a hot day so they went down to the river to swim. They played and splashed and swam in the water.

...

उस दिन बहुत गर्मी थी इसलिए वे नदी में तैरने चलने लगे। उन्होंने पानी में खेला, छोटि उड़ाय और तैराकी की।





अचानक, उन्हें लगा कि बहुत देर हो चुकी है। वे जल्दी-जल्दी गाँव की तरफ़ लौटने लगीं।

...

Suddenly, they realised that it was late. They hurried back to the village.



जब कुत्ता लौटकर वापिस आया, उसने नोज़िबेले को ढूँढ़ा। “नोज़िबेले कहाँ हो तुम?” वह चिल्लाया। “मैं यहाँ हूँ, बिस्तर के नीचे,” पहले बाल ने कहा। “मैं यहाँ हूँ, दरवाजे के पीछे,” दूसरे बाल ने बोला। और तीसरे बाल ने कहा “मैं यहाँ हूँ, बाड़े में”।

...

When the dog came back, he looked for Nozibele. “Nozibele, where are you?” he shouted. “I’m here, under the bed,” said the first hair. “I’m here, behind the door,” said the second hair. “I’m here, in the kraal,” said the third hair.

जब वे लगेगा घर के पास पहुँच गई, नीज़िबेले ने अपने गले पर हाथ लगाया। उसे एकसास हँसा कि वह अपने गले का हार वहीं भूल आयी थी! उसने अपनी सहेलियों से निवेदन किया कि "कृपया मेरे साथ वापस चली!" लेकिन उसकी सहेलियों ने कहा कि अब बहुत देर हो गई है, वे उसके साथ नहीं जा सकतीं।

...

When they were nearly home, Nozibele put her hand to her neck. She had forgotten her necklace! "Please come back with me!" she begged her friends. But her friends said it was too late.




जैसे ही कुत्ता गया, नीज़िबेले ने अपने सर से तीन बाल तोड़े। एक बाल को उसने बिस्तर के नीचे रख दिया, एक को दरवाज़े के पीछे और एक को बाड़े में रख दिया। फिर जितनी तेज़ी से वह भाग सकती थी अपने घर की तरफ भागी।

...

As soon as the dog had gone, Nozibele took three hairs from her head. She put one hair under the bed, one behind the door, and one in the kraal. Then she ran home as fast as she could.





इसलिए नोज़िबेले अकेले ही नदी की तरफ़ चली गई। उसे अपना हार मिल गया और वो जल्दी-जल्दी घर की ओर लौटने लगी। लेकिन वह अँधेरे में रास्ता भटक गई।

...

So Nozibele went back to the river alone. She found her necklace and hurried home. But she got lost in the dark.



हर रोज़ वह कुत्ते के लिए खाना बनाती, झाड़ू लगती और धोती। फिर एक दिने कुत्ते ने कहा, “नोज़िबेले, आज मैं अपने कुछ दोस्तों के घर जा रहा हूँ। मेरे आने से पहले घर में झाड़ू लगा देना, खाना बना देना और मेरा सामान धो देना।”

...


Every day she had to cook and sweep and wash for the dog. Then one day the dog said, “Nozibele, today I have to visit some friends. Sweep the house, cook the food and wash my things before I come back.”



कुछ दूर उसे कुछ रोशनी सी दिखाई दी जो एक झोंपड़ी से आ रही थी। वह जल्दी से रोशनी की ओर बढ़ी और उसने दरवाजा खटखटाया।

...

In the distance she saw light coming from a hut. She hurried towards it and knocked at the door.



फिर कुत्ते ने कहा, "भैया बिस्तर बनाओ!" "नज़िबते ने उत्तर दिया, "मुझे कुत्ते के लिए कभी बिस्तर नहीं बनाया।" "बिस्तर बनाओ, नहीं तो काट लूँगा!" कुत्ता बोला। तो नज़िबते ने बिस्तर बना दिया।

...


Then the dog said, "Make the bed for me!" Nozibele answered, "I've never made a bed for a dog." "Make the bed, or I'll bite you!" the dog said. So Nozibele made the bed.



अंदर से एक कुत्ते ने दरवाज़ा खोला। कुत्ते को देख कर वह चौंक गई। कुत्ते ने पूछा “तुम्हें क्या चाहिए?” नोज़िबेले ने कहा “मैं खो गई हूँ और मुझे सोने के लिए जगह चाहिए”। उसकी बात सुनकर कुत्ते ने कहा “अंदर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें काटूँगा!”। यह बात सुनकर नोज़िबेले अंदर चली गई।

...

To her surprise, a dog opened the door and said, “What do you want?” “I’m lost and I need a place to sleep,” said Nozibele. “Come in, or I’ll bite you!” said the dog. So Nozibele went in.



फिर कुत्ते ने कहा, “मेरे लिए खाना बनाओ!”। “लेकिन मैंने कभी भी किसी कुत्ते के लिए खाना नहीं बनाया है,” उसने उत्तर दिया। कुत्ते ने फिर कहा “खाना बनाओ, नहीं तो मैं काटूँगा!”। यह सुनकर नोज़िबेले ने कुत्ते के लिए कुछ खाना बना दिया।

...

Then the dog said, “Cook for me!” “But I’ve never cooked for a dog before,” she answered. “Cook, or I’ll bite you!” said the dog. So Nozibele cooked some food for the dog.